

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1890
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

.....

गंगा सफाई हेतु सशस्त्र बलों को शामिल करना

1890. श्री दुष्यंतचौटाला :

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार गंगा की सफाई के लिए प्रादेशिक सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों से सहायता लेने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने पहले ही गंगा सफाई परियोजना में गंगा नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय निवासियों और विद्यालयों तथा कॉलेजों से एनसीसी स्कॉउट को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है या देने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती)

(क) एवं (ख) जी, हां। रक्षा मंत्रालय ने अपने दिनांक 12 दिसंबर, 2014 के पत्र द्वारा गंगा कार्यबल नाम से संयुक्त पारिस्थितिकी कार्यबल की 4 बटालियन तैयार किए जाने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। नमामि गंगे कार्यक्रम को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने में भी सार्वजनिक भागीदारी घटक के तहत गंगा कार्यबल को एक कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

गंगा कार्यबल (i) गंगा के ऊपरी क्षेत्रों और किनारों पर वृक्षारोपण, (ii) जमीन पर प्रदूषण निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना, (iii) जन-जागरूकता और भागीदारी कार्यक्रमों का प्रबंधन, और (iv) खासकर भारी जनसमूह के दौरान घाटों के प्रबंधन में सहायता, के लिए उत्तरदायी होगा। प्रादेशिक सेना की एक नियमित बटालियन इलाहाबाद पहुंच चुकी है और पौधा रोपण, वनरोपण और तैयारी संबंधी कार्यकलापों संबंधी बटालियन का इस समय प्रशिक्षण चल रहा है।

(ग) और (घ) सरकार का गंगा सफाई परियोजना में, नदी के किनारों पर रह रहे स्थानीय लोगों, विद्यालयों, कॉलेजों के विद्यार्थियों तथा सभी लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव है। लोग स्वच्छ गंगा नदी में अंशदान करके हिस्सा ले सकते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नमामि गंगे कार्यक्रम में सम्प्रेषण और सार्वजनिक पहुंच कार्यकलापों का एक घटक रखा गया है। स्वच्छ गंगा परियोजना में स्वयंसेवियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए एनएमसीजी और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के बीच जून, 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
